

सेवा में  
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों  
के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक

**विषय: टर्म 1 परीक्षाएं आयोजित करने वाले केंद्र अधीक्षकों का सहयोग करना**

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि बोर्ड द्वारा सत्र-I परीक्षाएं नए प्रारूप में आयोजित की जा रही हैं। कल वेबिनार आयोजित करने के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. जिन विद्यालयों के छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्य विद्यालयों (परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित) में जा रहे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे केंद्र के रूप में निर्धारित विद्यालय के साथ अपने संसाधनों को साझा करें यानी उपस्कर/उपकरण (फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर आदि) और मानव संसाधन, (शिक्षक) ताकि निर्धारित अवधि के भीतर मुद्रण और अन्वीक्षण व मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मानव संसाधनों का भी उपयोग सुनिश्चित हो जाए। केंद्र विद्यालयों से भी अनुरोध है कि वे अग्रिम तैयारी करने के लिए विद्यालयों से तत्काल संपर्क करें।
2. केंद्र विद्यालय अन्य विद्यालयों से भी यह अनुरोध कर सकते हैं कि यदि संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो वे परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए उपस्कर / उपकरण और मानव संसाधन दोनों साझा करें।
3. परीक्षा के दिन, केंद्र विद्यालय परीक्षा के संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अन्वीक्षण और मूल्यांकन के लिए विषय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं करेगा।
4. सभी परीक्षाएं 16 से 29 नवंबर 2021 तक होंगी, और उसके बाद 26 दिसंबर, 2021 से, प्रश्न पत्रों की आपूर्ति केवल एन्क्रिप्टेड मोड में की जाएगी।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्णयों से परीक्षा केंद्रों को परीक्षा का सुचारू, निष्पक्ष और सफल आयोजन करने में सुविधा होगी। सहोदय की भावना अत्यंत सराहनीय होगी।

हस्ताक्षरित

(डॉ. संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक